



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 24]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013

का.आ. 24(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1223(अ), तारीख 28 मई, 2012, जो भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र, अर्थात्, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के धारवाड़ और बेल्गाम जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 433.000 कि.मी. से 515.000 कि.मी. (धारवाड़-बेलगाम सेक्शन) तक के पू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 21 जून, 2012 को "डक्कन हेराल्ड" अंग्रेजी दैनिक और तारीख 21 जून, 2012 को "संयुक्त कर्नाटक" कन्नड़ दैनिक में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 433.000 कि.मी. से 515.000 कि.मी. तक (धारवाड— बेलगाम सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.धारवाड	1.धारवाड	1. कुम्भापुर	91	निजी	शुष्क	2600	कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड
				92	निजी	शुष्क	1200	कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड
				93/4	निजी	शुष्क	300	कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड
				94/2	निजी	शुष्क	350	कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड
				94/1	निजी	शुष्क	300	कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड
				97/2	निजी	शुष्क	1200	कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड
				97/1	निजी	शुष्क	800	1) कृषि विश्वविद्यालय, धारवाड 2) नरेंद्र कंडेश्वर पुत्र बसवंतप्पा
			2. मुम्मिगट्टी	10	निजी	शुष्क	24	कुमार देसाई शिवानंद पुत्र अप्पासाहेब
				9	निजी	शुष्क	120	1) पटदय्यनवर शिवपुत्रय्या पुत्र बसय्या 2) पटदय्यनवर सुःपुत्रय्या पुत्र बसय्या 3) पटदय्यनवर शिवानंदय्या पुत्र बसय्या
				5	निजी	शुष्क	270	1) क्यातप्पनवर बसप्पा पुत्र भीमप्पा 2) क्यातप्पनवर गंजुनाथ पुत्र भीमप्पा 3) क्यातप्पनवर शेकप्पा पुत्र भीमप्पा 4) क्यातप्पनवर चन्नप्पा पुत्र भीमप्पा 5) क्यातप्पनवर भारव्वा पत्नी यल्लप्पा 6) क्यातप्पनवर चंद्रप्पा पुत्र यल्लप्पा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								7) क्यातप्पनवर देवप्पा पुत्र कल्लप्पा 8) क्यातप्पनवर अर्जुन पुत्र कल्लप्पा 9) क्यातप्पनवर परिशप्प पुत्र कल्लप्पा 10) सार्वजनिक तालाब
				2	निजी	शुष्क	200	1) असुंडी फळीरप्पा पुत्र यल्लप्पा 2) गुणवंते दीपक पुत्र गजानन 3) असुंडी धरणेंद्र पुत्र जिन्नप्पा 4) दानप्पनवर वीरप्पा पुत्र चन्नबसप्पा
				ग्रामस्थाना	निजी	शुष्क	385	ग्रामस्थाना
				ग्रामस्थाना	निजी	शुष्क	360	ग्रामस्थाना
				181	निजी	शुष्क	660	1) कुसप्पनवर महादेवी पत्नी महादेवप्पा 2) कुसप्पनवर चन्नबसप्पा पुत्र महादेवप्पा 3) कुसप्पनवर नीलप्पा उर्फ अनिल पुत्र महादेवप्पा 4) कोलवेकर उदय पुत्र तुकाराम 5) शहा राधिका पुत्री विजयकुमार 6) शहा मानसी पुत्री किरणचंद्र 7) पि. डब्ल्यू. डी. 8) भारत राष्ट्राध्यक्ष
				180P	निजी	शुष्क	360	1) मनु गणपति शानभाग 2) नागप्पा पंडरंग वै
				179P	निजी	शुष्क	560	राष्ट्रोत्थान परिशद, केंपेगीड नगर, बेंगलूरु
				176P	निजी	शुष्क	120	1) कडली उर्फ सुधल निगप्पा पुत्र कल्लप्पा 2) कडली उर्फ सुधल बसप्पा पुत्र निगप्पा 3) कडली उर्फ सुधल कल्लप्पा पुत्र ईरप्पा 4) देसाई संजय पुत्र आबासाहेब 5) देसाई वरुण पुत्र आबासाहेब

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				171	निजी	शुष्क	5667	1) देसाई चंद्रशेखर पुत्र गंगप्पा 2) देसाई ईश्वर पुत्र गंगप्पा 3) कर्नाटक इंडस्ट्रियल् एरिया, बेगलूर
				156	सरकारी	शुष्क	240	सरकार
				157	निजी	शुष्क	240	1) मरितम्मनवर पुंडलीकप्पा पुत्र मालप्पा 2) मरितम्मनवर सत्यप्पा पुत्र मालप्पा 3) मरितम्मनवर मल्लप्पा पुत्र मालप्पा
				161	निजी	शुष्क	720	1) कृष्णप्पनवर बसप्पा पुत्र गोविंदप्पा 2) कृष्णप्पनवर लक्ष्मण पुत्र गोविंदप्पा
				161/1	निजी	शुष्क	890	1) पूजा जनक पुत्र फकीरप्पा चव्हाण दत्तक शिवाजी पवार 2) देसाई वरुणकुमार आबासाहेब
			3. गुळदकोप्प	10P	निजी	शुष्क	45	नवलूर मंजुनाथ पुत्र गंगप्पा
				8	निजी	शुष्क	210	1) जाधव रुकमव्या पत्नी हनुमंतप्पा 2) जाधव फकीरप्पा पुत्र हनुमंतप्पा 3) जाधव ईश्वर पुत्र हनुमंतप्पा 4) जाधव ईरप्पा पुत्र हनुमंतप्पा 5) जाधव सिद्धप्पा पुत्री हनुमंतप्पा 6) उधोजी बसव्या पत्नी ईरप्पा 7) जाधव यत्तप्पा पुत्र केरप्पा
				3	सरकारी	सिंचित	560	तालाब
				4	निजी	सिंचित	300	माने सदेप्प पुत्र शांतप्पा
				5	निजी	शुष्क	600	1) माने उर्फ नवणे कृष्णप्पा पुत्र सुब्बप्पा 2) माने उर्फ नवणे रामचंद्र पुत्र राजप्पा 3) माने उर्फ नवणे हनुमंतप्पा पुत्र राजप्पा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4) माने उर्फ नवणे संकप्पा पुत्र राजप्पा 5) माने उर्फ नवणे पुंडलीकप्पा पुत्र राजप्पा 6) माने उर्फ नवणे विष्णु पुत्र राजप्पा
				179	निजी	शुष्क	390	पाटील यल्लनगौडा पुत्र देवप्पा
2	2. बेलगाम	1. बेलहोगल	1. डोंम्बरकोप्प	84	निजी	शुष्क	120	इंगले संजीव पुत्र मोहनदास
				85	निजी	सिंचित	390	1) चंगोली शिवानंद शिवपुत्रप्पा 2) चंगोली शशिधर शिवपुत्रप्पा 3) चंगोली श्रीकांत शिवपुत्रप्पा 4) चंगोली सदानंद शिवपुत्रप्पा
				88	निजी	शुष्क	240	1) मीरसाब पुत्र जैनुल्ला हजरतभाई 2) निसार अहमद पुत्र जैनुल्ला हजरतभाई
				91	निजी	शुष्क	510	1) विठ्ठल पुत्र हनुमंतप्पा भंडारी 2) गुडगी मडिवालप्पा गंगप्पा 3) गडगी बसवराज गंगप्पा
				83	निजी	शुष्क	45	1) कोलकार लक्ष्मण तिप्पण्णा 2) कोलकार तिप्पण्णा फळीरप्पा 3) कोलकार हनुमंत पुत्र फळीरप्पा 4) कोलकार गंगप्पा रामप्पा 5) कोलकार बालव्या पत्नी भीमप्पा 6) कोलकार बसप्पा भीमप्पा 7) कोलकार दयानंद भीमप्पा 8) कोलकार पार्वतव्या पत्नी सण्णफळीरप्पा 9) कोलकार गंगप्पा रामप्पा 10) कोलकार बालव्या भीमप्पा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				86	निजी	सिंचित	390	1) मडिगार यमनप्पा मौं मालव्या 2) हुलेर करेप्पा निंगप्पा 3) सरकार 4) हुलेर सोमलिंगप्पा निंगप्पा 5) हुलेर हनुमतप्पा निंगप्पा 6) हुलेर फकीरप्पा मौं हवळव्या 7) हुलेर बसवराज मौं हवळव्या 8) हुलेर शंघेप्पा मौं हवळव्या 9) हुलेर नारायण मौं हवळव्या
				87	निजी	शुष्क	720	1) नारायण पुत्र कृष्णाजी भास्करी 2) बेलवडी अब्दुलरहीम गौसमोहादीन
			2. अम्बडगट्टी	73	निजी	शुष्क	1900	दास्तिकोप्प बसवंतप्पा गुरुसिद्धप्पा
			3. कदरोली	85/7	निजी	शुष्क	100	1) गंगप्पा पुत्र बाळप्पा कुरबर 2) बाबु पुत्र बाळप्पा कुरबर
			4. दास्तिकोप्प	22	निजी	शुष्क	105	के.एल. स्वामी मेसर्स प्रैवेट लिमिटेड, बेंगलूर
		2. बेलगाम	1. तारिहाल	280	निजी	शुष्क	105	अत्तार रियाझ मोहम्मद साब
				281	निजी	शुष्क	125	अत्तार रियाझ मोहम्मद साब
			2. कमकारट्टी	14	निजी	शुष्क	1600	1) कामण्णवर नागप्पा चूडप्पा 2) कामण्णवर राम चूडप्पा 3) कामण्णवर भाकण्णा पोन्नप्पा 4) कामण्णवर गौरव्या मारुति 5) कामण्णवर नारायण पोन्नप्पा 6) कामण्णवर परशुराम पोन्नप्पा 7) कामण्णवर फकीर पोन्नप्पा 8) कामण्णवर मनोहर हूणप्पा
				15	निजी	शुष्क	200	1) लकमण्णवर मल्लप्पा चन्नप्पा 2) लकमण्णवर अप्पय्या चन्नप्पा 3) लकमण्णवर मोहन अर्जुन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. हलगा	252	निजी	शुष्क	30	1) गायराणा 2) कर्नाटक सरकार 3) गौरी लक्ष्मण मशानु 4) गौरि हनुमंताचे शिहप्पा गुंडू 5) गौरी मोनप्पा रेवणी 6) गोर्पडे उर्फ गौरी हनुमंताचे बाबुराव 7) गोर्पडे उर्फ गौरी हनुमंताचे अशोक मल्लप्पा 8) गोर्पडे उर्फ गौरी हनुमंताचे मारुति मल्लप्पा 9) गोर्पडे उर्फ गौरी हनुमंताचे अर्जुन मल्लप्पा 10) गोर्पडे राजु देवप्पा 11) गौरी हनुमंताचे भैरु नागप्पा 12) गौरी हनुमंताचे भरमा नागप्पा
				251	निजी	शुष्क	250	1) शिंदे फकीर अण्णप्पा 2) शिंदे शंकर अण्णप्पा
				255	निजी	शुष्क	60	1) शिंदे अप्पय्या अण्णप्पा 2) शिंदे धर्मनाथ भैरु 3) बिलगोजी राम भीम 4) बिलगोजी शिवाजी भीम 5) बिलगोजी प्रकाश नागप्पा 6) शिंदे भीमराव भैरु 7) शिंदे राजेंद्र मारुति 8) शिंदे गजानन मारुति 9) बिलगोजी मारुति भीम
				256	निजी	शुष्क	90	1) बिलगोजी शंकर पुत्र गंगाराम 2) बिलगोजी फकीर साधु 3) बिलगोजी लक्ष्मण साधु 4) बिलगोजी मोनप्पा साधु 5) बिलगोजी महादेव साधु 6) बिलगोजी गंगूबाई बाळप्पा 7) बिलगोजी यल्लप्पा मारुति 8) बिलगोजी रमेश मारुति 9) बिलगोजी लक्ष्मण मारुति 10) बिलगोजी पीराजि मोनप्पा 11) नहिंद मेहबूब बारा पठाण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				257	निजी	शुष्क	220	1) कमति बाबु भैरु 2) कमति बाबु लक्ष्मण 3) कमति भैरु लक्ष्मण 4) कमति पीराजी फकीर 5) कमति बाबु देवप्पा 6) कमति गुंडू देवप्पा 7) कमति कृष्णा देवप्पा 8) कमति अर्जुन फकीर 9) कमति यल्लप्पा फकीर 10) कमति परशुराम सहदेव
				258/2	निजी	शुष्क	180	1) पठाण नियाज सत्तारखान 2) सत्तारखान पठाण नियाज
				258/1	निजी	शुष्क	250	1) पठाण मोहम्मद रसूल 2) पठाण नजीर रसूल 3) पठाण मक्तुम रसूल 4) पठाण बशीर मोदिनखान 5) पठाण मुन्ना मोदिनखान 6) पठाण मुस्तफा मोदिनखान
				259	निजी	शुष्क	75	बिलगोजी शंकर पुत्र गंगाराम
				260/5	निजी	शुष्क	75	1) जाधव अर्जुन फकीर 2) जाधव जिनाबाई पत्नी मारुति 3) जाधव विठ्ठल फकीर 4) जाधव गंगूबाई फकीर 5) जाधव यल्लप्पा वसंत 6) जाधव पिराजी नार्गेद्र 7) जाधव किशनकुमार नार्गेद्र
				260/4	निजी	शुष्क	180	1) शमाजी कृष्ण शेठु 2) शमाजी यल्लप्पा मशनु
				260/3	निजी	शुष्क	10	देसाई अभय चिंतामणि
				241	निजी	शुष्क	60	1) पै मणूर वेंकटेश 2) हेगडे सदानंद विघ्नेश्वर 3) कुडचि बसवंत कल्लप्पा 4) कुडचि हनुमंत कल्लप्पा 5) पी. डब्ल्यू.डी., बेलगाम
				240	निजी	शुष्क	280	बेल्लद ए कंपनी प्रै. लि.
				261/3	निजी	शुष्क	45	1) चिकपरप्प बाहुबली तवनप्पा 2) चिकपरप्प चंद्रकांत तवनप्पा 3) चिकपरप्प नागकुमार धर्मत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4) चिक्कपरप्प अशोक धर्मत 5) चिक्कपरप्प जिनदत्त धर्मत 6) भरतेश शिक्षण ट्रस्ट, बेलगाम
				261/2	निजी	शुष्क	90	1) हनुमंताचे यल्लप्पा यल्लप्पा 2) कुंदेकर अप्पय्या यल्लप्पा 3) गिरमल फकीर साम्बाजी 4) कलिंग परशुराम दत्तोबा 5) चौगले फकीर भावप्पा 6) हनुमंताचे रामचंद्र भैरु 7) खम्पणाचे फकीर भरम 8) हनुमंताचे नागेंद्र निंगप्पा
				261/1	निजी	शुष्क	315	1) दोड्डपरप्प सुरेंद्र कल्लप्पा 2) दोड्डपरप्प बाहुबली गुंदू 3) दोड्डपरप्प कल्लप्प गुंदू
				160	निजी	शुष्क	50	1) कणगलगीड बाबु मल्लप्पा 2) कणगलगीड अप्पण्ण तवनप्पा 3) कणगलगीड अप्पण्ण उर्फ अप्पय्या तवनप्पा 4) कल्लुरसेकर जयंत रघुनाथ 5) कल्लुरसेकर फकीर निंगप्पा 6) कणगलगीड गोमल देवप्पा 7) कणगलगीड फकीर माणिक 8) कणगलगीड शांता बाबु 9) कणगलगीड आनंद बाबु 10) कणगलगीड अभिनंदन बाबु 11) कणगलगीड देवप्पा बाबु 12) कणगलगीड शकुंतला जिन्नप्पा 13) कणगलगीड पारिश जिन्नप्पा
				261/1	निजी	शुष्क	220	1) दोड्डपरप्प सुरेंद्र कल्लप्पा 2) दोड्डपरप्प बाहुबली गुंदू 3) दोड्डपरप्प कल्लप्प गुंदू
				262	निजी	शुष्क	645	1) भायराणा 2) कर्नाटक सरकार 3) भारतीय ग्रामाभिवृद्धि संस्था —होसूर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				265	निजी	शुष्क	270	1) सैबण्णवर तवनप्पा देवेंद्रप्पा 2) सैबण्णवर नेमिनाथ अर्जुन 3) सैबण्णवर धरणेंद्र अर्जुन 4) सैबण्णवर सुरेंद्र अर्जुन 5) सैबण्णवर सुमित्रा पत्नी अर्जुन 6) सैबण्णवर हीराचंद अप्पासाहेब 7) सैबण्णवर महावीर अप्पासाहेब 8) सैबण्णवर शोभा मन्मथ 9) सैबण्णवर वृषभ मन्मथ
				266	निजी	शुष्क	45	1) बिलगोजी लक्ष्मण भैरव 2) बिलगोजी यल्लप्पा यल्लप्पा 3) बिलगोजी पीराजी भैरव 4) बिलगोजी मल्लप्पा भैरव 5) बिलगोजी बसवंत लक्ष्मण 6) बिलगोजी बसप्पा नागप्पा 7) पठाण युसूफ मत्तुम 8) मुरगाणि ओमण्ण ईरप्पा 9) संथाजी खेमण्णा मल्लप्पा
				2	निजी	शुष्क	205	श्रीमंत पाटील कल्लप्पा भरमण्णा
				109	निजी	शुष्क	180	1) मुदिगौड यशवंत कुबेर 2) मुदिगौड बालप्पा कुबेर 3) मुदिगौड देवेंद्र कुबेर 4) देसाई अण्णासाहेब अप्पय्या 5) देसाई हीराचंद अप्पय्या 6) सैबण्णवर अप्पण्णा तवनप्पा 7) सैबण्णवर भरम तवनप्पा 8) देसाई राजेंद्र अण्णप्पा 9) देसाई अशोक अण्णप्पा 10) देसाई विजय अण्णप्पा
				102	निजी	शुष्क	132	1) खानोजी चंद्रकांत फकीर 2) खानोजी लक्ष्मीबाई पत्नी फकीर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83	निजी	शुक्	850	1) समाजी किरण मारुति 2) समाजी यल्लप्पा मोनप्पा 3) समाजी नारायण लक्ष्मण 4) समाजी बालासाहेब मारुति 5) समाजी मिलिंद मारुति 6) समाजी शकुंतला मारुति 7) समाजी सुरेश भीमराव 8) समाजी मालु विजय 9) समाजी राणी विजय
				81	निजी	शुक्	15	1) समाजी यल्लप्पा मल्लप्पा 2) समाजी मर्याणी गंगाराम 3) समाजी शिवाजी गंगाराम 4) समाजी महादेव गंगाराम 5) समाजी देवप्पा शतु 6) समाजी लक्ष्मण शंकर 7) समाजी संजय शंकर 8) समाजी जिन्नप्पा शतु 9) समाजी कृष्णा शतु 10) समाजी कल्लप्पा गंगाराम
				82	निजी	शुक्	15	कुलकर्णी शंकर गणेश
				101/2	निजी	शुक्	302	1) पायक अनंत धर्मप्पा 2) पायक बालप्पा कल्लप्पा 3) पायक अशोक कल्लप्पा 4) पायक भरत कल्लप्पा 5) डम्मणगी अर्जुन जिन्नप्पा 6) पायक बाहुबली अप्पण्णा 7) गुमगी चन्नप्पा यल्लप्पा
				49	निजी	शुक्	65	1) भंदक देवेंद्रप्पा तवनप्पा 2) भंदक केशप्पा तवनप्पा 3) दिंडे संजय अर्जुन 4) पाटील विद्यासागर भीमप्पा
				50	निजी	शुक्	235	1) देसाई बाबु गुंडप्पा 2) देसाई जिन्नप्पा गुंडप्पा 3) देसाई सुमित्रा पत्नी गुंडप्पा 4) लिंगाडे निर्मलकुमार तवनप्पा 5) इचल हर्षवर्धन अनिलकुमार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				59	निजी	शुष्क	15	1) मुन्नाळी सातवा पत्नी भीमप्पा 2) मुन्नाळी जिन्नप्पा भुजप्पा 3) तिगडी शांतवा पत्नी अर्जुन 4) खानोशि ललिता पत्नी महेन्द्र 5) देसाई विमल पत्नी संजीव
				60	निजी	शुष्क	455	1) जमनानी हीराचंद किकाराम 2) जमनानी भगवानदास किकाराम 3) जमनानी गोपाल किकाराम 4) जमनानी उत्तम किकाराम 5) जमनानी श्रीचंद किकाराम 6) कमण्णाचे नागेंद्र लक्ष्मण 7) कमण्णाचे अनंत लक्ष्मण 8) कमण्णाचे गोपिचंद लक्ष्मण 9) कमण्णाचे ज्ञानेश्वर गुंडू 10) कमण्णाचे नामदेव गुंडू 11) कमण्णाचे तुकाराम गुंडू 12) कमण्णाचे सुरेश गुंडू 13) देसाई अरुणा पत्नी शशिकुमार 14) देसाई प्रीति अदृशप्पा
				60	निजी	शुष्क	761	1) जमनानी हीराचंद किकाराम 2) जमनानी भगवानदास किकाराम 3) जमनानी गोपाल किकाराम 4) जमनानी उत्तम किकाराम 5) जमनानी श्रीचंद किकाराम 6) कमण्णाचे नागेंद्र लक्ष्मण 7) कमण्णाचे अनंत लक्ष्मण 8) कमण्णाचे गोपिचंद लक्ष्मण 9) कमण्णाचे ज्ञानेश्वर गुंडू 10) कमण्णाचे नामदेव गुंडू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								11) कमण्णाचे तुकाराम गुंडू 12) कमण्णाचे सुरेश गुंडू 13) देसाई अरुणा पत्नी शशिकुमार 14) देसाई प्रीति अदृशप्पा
				61/1	निजी	शुष्क	300	1) मुदिगौड यशवंत कुबेर 2) मुदिगौड बालप्पा कुबेर 3) मुदिगौड देवेंद्र कुबेर
			4. बेलगाम	609	निजी	शुष्क	1197	1) मुच्चंडी शैलजा महादेव 2) मुच्चंडी महादेव भरमाजी
				611	निजी	शुष्क	420	1) शहापुरकर लक्ष्मण साताप्पा 2) शहापुरकर दशरथ साताप्पा 3) शहापुरकर सदाशिव साताप्पा 4) शहापुरकर भैरु साताप्पा 5) शहापुरकर कल्लप्पा कृष्णा 6) शहापुरकर श्रीमंत कृष्णा 7) शहापुरकर महेश कृष्णा 8) शहापुरकर ज्योतिबा निंगप्पा 9) शहापुरकर परशुराम निंगप्पा
				485/1	निजी	शुष्क	40	1) सणकल पुरुशोत्तम नारायण 2) सणकल जादवाजी नारायण 3) पोकर भणिलाल विश्राम 4) पोकर शंकरलाल विश्राम 5) पटेल उर्फ लंबाणी कछूआई सोमाजी 6) पटेल उर्फ लंबाणी दिनेश सोमाजी 7) पटेल उर्फ लंबाणी नारायण सोमाजी 8) पटेल उर्फ लंबाणी धर्मशि सोमाजी 9) पटेल उर्फ लंबाणी प्रवीण सोमाजी
				483/4	निजी	शुष्क	190	1) चौगले रामा मेगो 2) पेरुमाळ प्रमीळा राजिनगौडर 3) चौगले लक्ष्मण मेगो 4) जाधव मिलिंद जयवंत 5) चौगले कृष्णा मेगो
				483/5	निजी	शुष्क	85	मलिका लुमण्णा सोमण्णा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				481/3	निजी	शुष्क	120	पि.डब्ल्यू.डी.
				480	निजी	शुष्क	330	1) चाला श्रीमंदार भूपाल 2) चेनमेकर इमामहुसेन मोहम्मदसाब 3) पठाण नजीर अहमद दावूदसाब 4) किन्नूर शकील अहमद इब्राहिमसाब 5) कदम गोपाल भीमराव 6) इराचि दत्तु नारायण 7) पाटील कुढाजी तुकाराम 8) पाटील यशोदाबाई कुढाजी 9) कदम अशोक गोपालराव
				451	निजी	शुष्क	190	श्री नागनूर श्री शिववबसव स्वामिजी शिक्षण संस्था
				499/1	निजी	शुष्क	240	1) शेरगार अबां रामण्णा 2) मोरे शंकर फकीर 3) मोरे कृष्णा फकीरा 4) पटेल नरेंद्रकुमार प्रेमाजी 5) पटेल चंदूलाल प्रेमाजी
				485/2	निजी	शुष्क	350	1) फर्डिनांड लारेन्स पिंटो 2) धोंगडी दयानंद दत्तात्रय 3) धोंगडी जयंत दत्तात्रय 4) धोंगडी महेंद्र दत्तात्रय 5) धोंगडी रघुनाथ दत्तात्रय
				483/4	निजी	शुष्क	200	1) चौगले रामा मेगो 2) पेरुमाळ प्रमीळा राजिनगौडर 3) चौगले लक्ष्मण मेगो 4) जाधव मिलिंद जयवंत 5) चौगले कृष्णा मेगो
				481/2	निजी	शुष्क	320	पि.डब्ल्यू.डी.
				819	निजी	शुष्क	40	1) दातार पुलाबाई महेराव 2) अनगोळ सुभास पारिशप्पा
				821	निजी	शुष्क	700	कोटगेरी तलप
				822	निजी	शुष्क	150	1) रामगोंडा राजेंद्र पायप्पा 2) रामगोंडा रवींद्र पायप्पा 3) रामगोंडा रतन पायप्पा 4) रामगोंडा राकेश पायप्पा 5) रामगोंडा सुलोचना पायप्पा 6) पि.डब्ल्यू.डी. कार्यनिर्वाहक अभियंता, बेलगाम
				843	निजी	शुष्क	25	वांडकर नळिनी सुरेश

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1024/A	निजी	शुष्क	15	1) रजपूत धर्मसिंग भीमसिंग 2) रजपूत रामसिंग भीमसिंग 3) रजपूत चम्बुसिंग भीमसिंग 4) रजपूत बसवतसिंग भीमसिंग
				1019/2B	सरकारी	शुष्क	360	पि.डब्ल्यू.डी., बेलगाम
				1019/2A	सरकारी	शुष्क	300	पि.डब्ल्यू.डी., बेलगाम
				1019/1	निजी	शुष्क	480	1) नाईडु सुब्बय्या रंगस्वामी 2) नाईडु कुमारस्वामी रंगस्वामी 3) नाईडु विजय रंगस्वामी 4) नाईडु लक्ष्मी पत्नी रंगस्वामी उर्फ रंगय्या 5) चेंडक विक्रम राजेंद्र 6) चेंडक सरळा राजेंद्र 7) चेंडक जयश्री जयप्रकाश 8) गिलाडा निर्मला वासुदेव 9) कार्यदर्शी, योजना अधिकारी, बेलगाम
				1316/2	निजी	शुष्क	171	1) बेलगाम मुनिसिपालिटी 2) कडोळकर बालकृष्ण दत्तात्रय 3) पाटील रवींद्र शंकरगौडा प्लाट 214 4) हेडा घनश्याम एल. प्लाट नं. 219 5) गदग नागप्पा गदिगेप्पा 6) दुर्गणवर इद्राबाई देवेंद्र प्लाट नं. 210 7) बोगाअ चंद्रप्पा कुबेरप्पा प्लाट नं. 206
				1315/3	सरकारी	शुष्क	1050	बेलगाम मुनिसिपालिटी
				1315/2	सरकारी	शुष्क	660	बेलगाम मुनिसिपालिटी
				1317/1	निजी	शुष्क	720	1) बेलगाम मुनिसिपालिटी 2) पाटील क. ऐ. 3) बणगावी बालप्पा निंगप्पा
			5. कंगराली बी. के	38/20	निजी	शुष्क	20	मुगुळीकर गंगाबाई यल्लप्पा
				38/9	निजी	शुष्क	385	शिवाजी पुत्र गुंडू हल्लोकर
				38/8	निजी	शुष्क	150	मोम्मद शफी पुत्र हजरत साहेब पीरजादे
				38/7	निजी	शुष्क	200	1) नेगिनहाळ भीमप्पा विरुपाक्षी प्लाट नं. 3 2) संकण्णवर बसवण्णे शंकरेप्पा प्लाट नं. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3) रसाळ विजयकुमार पांडुरंग प्लाट नं. 4 4) कोनेरी उर्फ चव्हाण निगम यल्लप्पा 5) अलथागी ज्योति अशोक प्लाट नं. 5
				38/6	निजी	शुष्क	240	1) दोशि रमणलाल ताराचंद 2) दोशि सुरेश ताराचंद 3) दोशि दिलीप ताराचंद 4) दोशि कीर्तिकुमार ताराचंद
				38/5	निजी	शुष्क	240	1) नारायण कल्लप्पा पाटील 2) मारुति कल्लप्पा पाटील
			6. यमनापुर	115	निजी	शुष्क	5520	के.ए.ए.डी.बी., बेंगलूरु
				116/3	निजी	शुष्क	350	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				114/1	निजी	शुष्क	4960	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				114/1	निजी	शुष्क	145	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				110/3	निजी	शुष्क	525	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				110/1	निजी	शुष्क	400	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				116/2	निजी	शुष्क	425	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				117A	निजी	शुष्क	525	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				110/1	निजी	शुष्क	195	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				109/1	निजी	शुष्क	20	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				105	निजी	शुष्क	125	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				16/65	निजी	शुष्क	640	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				16/59	निजी	शुष्क	225	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				16/58	निजी	शुष्क	90	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				16/55	निजी	शुष्क	100	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				16/54	निजी	शुष्क	110	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				16/53	निजी	शुष्क	75	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम
				16/52	निजी	शुष्क	20	भारतीय अल्यूमिनियम कं., बेलगाम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14/2	निजी	शुष्क	80	1) पाटील मल्लव्या भावुक उर्फ भावकण्ण 2) कणबरकर चंदा प्रकाश 3) खोचेरी बाबी गजानन 4) पवार नीता लक्ष्मण
				14/3	निजी	शुष्क	25	पाटील केदार ओमण्णा
				14/4	निजी	शुष्क	30	पाटील राम सिद्राई
				14/5	निजी	शुष्क	60	1) पाटील पीराजी सिद्धप्पा 2) पाटील केदार सिद्धप्पा 3) पाटील गवडु सिद्धप्पा 4) पाटील भावुराव सिद्धप्पा
								5) पाटील परशुराम सिद्धप्पा 6) पाटील भुजंग ईरप्पा 7) पाटील दशरथ सिद्राई 8) पाटील किरण सिद्राई
				14/6	निजी	शुष्क	40	पाटील ढकलू निंगप्पा
				14/7	निजी	शुष्क	10	1) पाटील मारुति गोविंद 2) पाटील निंगप्पा गोविंद 3) पाटील चवुनीडा गोविंद 4) पाटील लक्ष्मण गोविंद
				14/1	निजी	शुष्क	76	पाटील पीसजी नागो
				13	निजी	शुष्क	300	1) पाटील भावकण्णा दुंडप्पा 2) पाटील बाळु दुंडप्पा 3) पाटील महदेव भैरु 4) पाटील बलराम भैरु 5) पाटील लक्ष्मण भैरु
				10	निजी	शुष्क	360	1) धोडोजी पवार देवप्पा सिद्राई 2) धोडोजी पवार रुद्रप्पा पुण्णप्पा 3) धोडोजी पवार रामचंद्र पुण्णप्पा
				9	निजी	शुष्क	475	कोनेवाडी पीराजी सिद्राई
		7. काकती		208	निजी	शुष्क	416	1) नागवडेकर राजु सिद्राम 2) नागवडेकर लक्ष्मण सिद्राम 3) नार्वेकर पीराजी चालू 4) पुरोहित वेगासिंग रावतसिंग 5) कोनेवाडी भर्म यल्लप्पा
								6) कोनेवाडी भैरु यल्लप्पा 7) कोनेवाडी मारुति यल्लप्पा 8) कोनेवाडी बसवंत यल्लप्पा 9) कोनेवाडी चूडप्पा यल्लप्पा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10) कोनेवाडी देवप्पा यल्लप्पा 11) हुरडी बाळु गंगाराम 12) बंडुर्गे सोमनाथ लक्ष्मण 13) वरपे मल्लेशी दत्तु
				207	निजी	शुष्क	1350	1) तेल जे, तेल 292-13/7/50 2) तोरल तालाब
				207	निजी	शुष्क	1000	1) तेल जे, तेल 292-13/7/50 2) तोरल तालाब
				213/2	निजी	शुष्क	2465	1) नंदन, रेणुका शुगर्स 2) विठ्ठलराव याळगी
				213/1	निजी	शुष्क	1200	बावडेकर प्रवीण शरद
				212/5	निजी	शुष्क	1250	बरडे विकास दत्तात्रय
				212/1B	निजी	शुष्क	15	1) बरडे विकास दत्तात्रय 2) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कं.
				214/7	निजी	शुष्क	250	1) धनगर उर्फ कुरुबर भीमप्पा रामप्पा 2) धनगर उर्फ कुरुबर मारुति रामप्पा
				215	निजी	शुष्क	210	1) शेख मोहमद इसाक अब्दुल अजीज 2) शेख मोहमद शफी अब्दुल अजीज 3) शेख मोहमद निसार अब्दुल अजीज 4) शेख पैमिदा मोहम्मद रफीक 5) शेख समीना मोहम्मद रफीक 6) शेख असिफ मोहम्मद रफीक 7) शेख मिनाज मोहम्मद रफीक
				216/16	निजी	शुष्क	175	1) धनगर लक्ष्मीबाई चन्नप्पा 2) धनगर फकीर चन्नप्पा 3) धनगर सिद्धप्पा चन्नप्पा 4) धनगर कल्लप्पा चन्नप्पा 5) धनगर विठ्ठल चन्नप्पा 6) धनगर मारुति चन्नप्पा
				217/7	निजी	शुष्क	140	1) हुदार भरम मांशु 2) हुदार ओमण्णा मशु 3) हुदार गणपति मशु
				217/5	निजी	शुष्क	240	कोनेरी कोबण्णा काळु
				219	निजी	शुष्क	125	मंजरेकर नयना सुबोध
				219	निजी	शुष्क	650	मंजरेकर नयना सुबोध

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				232/4	निजी	शुक्ल	605	काकती उर्फ रंगाई शंकर सिद्ध्या
				145/5	निजी	शुक्ल	120	कुलकर्णी रामकृष्ण उर्फ प्रताप शेषो
				145/4	निजी	शुक्ल	75	कुलकर्णी रामकृष्ण उर्फ प्रताप
				78/1	निजी	शुक्ल	90	1) शोदेकर नारायण हनुमंत 2) चौगले मारुति रामचंद्र 3) मिसाळ बाळासाहेब हनुमंतराव 4) पाटील प्रकाश नारायण 5) पाटील रामचंद्र तुकाराम 6) कडोलकर तुकाराम कृष्ण
				79	निजी	शुक्ल	415	मुल्ला मोहमद अब्दुलकरीम
				80	निजी	शुक्ल	255	1) हलगेकर महेश रामराव 2) कोचेरी सिद्राई पुत्र गुंडू 3) कोचेरी भीमराय पुत्र गुंडू 4) कोचेरी केदार पुत्र गुंडू 5) मनगुटकर माणुक निंगप्पा 6) कोचेरी गुंडू सिद्ध्या 7) कोचेरी कल्लप्पा किरण 8) कोचेरी गणपति पुत्र भरम 9) कोचेरी भावकण्णा पुत्र भरम 10) कोचेरी बाबु पुत्र भरम 11) कोचेरी मनोहर पुत्र भरम 12) कोचेरी भरम गणेश 13) कोचेरी कल्लप्पा किरण 14) कोचेरी उमेश ज्योतिबा 15) कोचेरी किरण राजेश ज्योतिबा 16) कोचेरी महेश ज्योतिबा 17) कोचेरी श्रीमति वसुंधरा ज्योतिबा 18) भारत राष्ट्रध्यक्ष 19) गवी मासण्ण मायण्ण 20) गवी गुंडू मायण्णा 21) आग अब्दुलखादर इब्राहिम 22) घोमण्णा मल्लप्पा वेंकटेश 23) सात्रिकर विवेक शंकर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				70	निजी	शुष्क	105	1) पाटील शंकर नागप्पा 2) खुत्रे लक्ष्मण नागप्पा 3) खोळे बाबुराव बसवंत 4) खोळे नारायण बसवंत
				83/23	निजी	शुष्क	420	1) गवी मश्नु मायण्णा 2) गवी गुंडू मायण्णा 3) कंग्रळकर सिद्राय सिहप्पा
				83/1	निजी	शुष्क	560	हालण्णवर मल्लप्पा बीरप्पा
				82	निजी	शुष्क	405	1) श्री गणपति 2) भावकण्णा 3) बाबु 4) मनोहर पुत्र भरम कोचेरी
				83/15	निजी	शुष्क	5	1) कोचेरी लक्ष्मण सिद्द 2) कोचेरी केदार सिद्द
				83/11	निजी	शुष्क	155	कोचेरी रामका सिद्राई
				83/6	निजी	शुष्क	360	1) गवी मश्नु मायण्णा 2) गवी गुंडू मायण्णा
				83/10	निजी	शुष्क	5	कोचेरी बाबु परशुराम
				83/9	निजी	शुष्क	135	1) कोचेरी कल्लप्पा किरयण्ण 2) कोचेरी आनंद किरयण्ण
				83/7	निजी	शुष्क	105	कोचेरी भरम गणेश
				83/5	निजी	शुष्क	130	कोचेरी बाबु परशुराम
				83/4	निजी	शुष्क	50	1) कोचेरी सिद्राई गुंडू 2) कोचेरी कल्लप्पा गुंडू 3) कोचेरी भीमराय गुंडू 4) कोचेरी केदार गुंडू
				83/3	निजी	शुष्क	225	1) कोचेरी आनंद केदार 2) कोचेरी पुंडलीक केदार
				83/2/1	निजी	शुष्क	1900	1) कोचेरी आनंद केदार 2) कोचेरी पुंडलीक केदार 3) गवी मश्नु मायण्ण 4) कोचेरी ज्योति यल्लप्पा 5) कोचेरी परशु ज्योति 6) कोचेरी कल्लप्पा गिरियण्ण 7) गवी मश्नु मायण्ण 8) कोचेरी भरम गणेश 9) कोचेरी गुंडू सिहप्पा 10) ज्योतिबा मश्नु गवी
				83/1	निजी	शुष्क	925	हालण्णवर मल्लप्पा बीरप्पा
				83/24	निजी	शुष्क	135	1) कोचेरी आनंद केदार 2) कोचेरी पुंडलीक केदार 3) ज्योतिबा मश्नु गवी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				80	निजी	शुष्क	660	1) हलगेकर महेश रामराव 2) कोचेरी पुंडलीक पुत्र गुंडू 3) कोचेरी भीमराय पुत्र गुंडू 4) कोचेरी केदार पुत्र गुंडू 5) मनगुटकर माणुक निगप्पा 6) कोचेरी गुंडू सिद्धप्पा 7) कोचेरी कल्लप्पा किरण 8) कोचेरी गणपति पुत्र भरम 9) कोचेरी भावकण्णा पुत्र भरम 10) कोचेरी बाबु पुत्र भरम 11) कोचेरी मनोहर पुत्र भरम 12) कोचेरी भरम गणेश 13) कोचेरी कल्लप्पा किरण 14) कोचेरी उमेश ज्योतिबा 15) कोचेरी किरण राजेश ज्योतिबा 16) कोचेरी महेश ज्योतिबा 17) कोचेरी श्रीमति वसुंधरा ज्योतिबा 18) भारत राष्ट्राध्यक्ष 19) गवी मासण्ण मायण्ण 20) गवी गुंडू मायण्णा 21) आग अब्दुलखादर इब्राहिम 22) घोमण्णा मल्लप्पा वैकटेश 23) साब्रेकर विवेक शंकर
				81	निजी	सिधित	625	1) देसाई सदानंद शंकर 2) देसाई सरोजिनी सदानंद 3) देसाई राजेंद्र सदानंद 4) देसाई सुनील सदानंद 5) देसाई दीपक सदानंद 6) देसाई अविनाश जयंत 7) देसाई लीलावती जयंत 8) मार्कांडे शुगर मिल्स
				85	निजी	शुष्क	480	1) चौगले सिद्धराय लक्ष्मण 2) मार्कांडे शुगर मिल्स 3) मायण्णाचे बसवंत शंकर 4) कोचेरी राजेश ज्योतिबा 5) कोचेरी उमेश ज्योतिबा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6) कोचेरी महेश ज्योतिबा 7) कोचेरी वसुधरा ज्योतिबा 8) कारेगार राजु महादेव 9) हालण्णवर मल्लप्पा भीमप्पा 10) शेखरगोळ निर्वाणी सिद्धप्पा 11) पाटील बाळगोडा ईरप्पा
			8. होनगा	532	निजी	शुष्क	5123	पाटील विश्वपाल रुद्रगौडा
				536	निजी	शुष्क	320	1) भू अभिवृद्धि मंडली, बेलगाम 2) दादासन्स रबबर रोलर प्रै. लि. 3) सुप्रभा एंटरप्राइसस् 4) वीरभद्र लाईफ इंडस्ट्री 5) गिड्डण्णवर गुरुपुत्र सिद्धप्पा
				534/3	निजी	शुष्क	115	पाटील प्रकाश दत्तु
				534/2	निजी	शुष्क	20	पाटील आनंद राजाराम
				534/1	निजी	शुष्क	60	1) पाटील सुब्बाराव भैरु 2) पाटील फकीराभाई ओमिना
				541	निजी	शुष्क	490	1) आनंदाचे खाचु चन्नप्पा 2) आनंदाचे बाळप्पा राम 3) आनंदाचे महादेव राम 4) आनंदाचे विष्णु कल्लप्पा
				ग्रामस्थाना	निजी	शुष्क	300	ग्रामस्थाना
				ग्रामस्थाना	निजी	शुष्क	537	ग्रामस्थाना
				536	निजी	शुष्क	3095	1) के.ऐ.ए.डि.बि. बेलगाम 2) दादासन्स रबबर रोलर प्रै. लि. 3) निरंजन दुर्गाप्रसाद प्लाट 115ए 4) सुप्रभा एंटरप्राइसस् 5) वीरभद्रेश्वर लाईम इंडस्ट्री —महंतेश बि. शिवपूजिमठ प्लाट नं. 48/बी1
								6) ज्योति मोटार बाडी बिल्डर प्रापर्टीस् — पुण्णप्पा बी. कडोलकर प्लाट नं. 81/ए 7) क्याट्सन् पोलिमर्स पार्टनर्स शंतनु कवठेकर प्लाट नं. 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>8) शिवशक्ति कान्फेक्शनरी वर्क्स—ए. जी. हेगडे</p> <p>9) दीपश्री प्लास्टिक इंडस्ट्री—निर्मला एच्. पाटील प्लाट नं. 57/ए</p> <p>10) पार्वति इंडस्ट्रीस्—पी. आर्. पाटील</p>
								<p>11) दि क्वालिटी सिमेंट प्रोडक्शन—ममुला ए. मुजावर प्लाट नं. 11/आ</p> <p>12) लक्ष्मी इंडस्ट्रीस्</p> <p>13) गणेश इंडस्ट्रीस्—वीरेश ए. आवटे प्लाट नं. 56बी</p>
								<p>14) इचल शिवानंद प्रभाकर प्लाट नं. 38</p> <p>15) एस्. एस्. प्रोडक्शन—सुनीता एस्. कुलकर्णी प्लाट नं. 100टी</p> <p>16) एच्. जी. फार्मसी आलम् तर्फे किल्लेदार नसरिन दादापीर प्लाट नं. 62/ए</p> <p>17) फार्मा इंडस्ट्रीस्—स. एल. राक्</p>
								<p>18) आर्. आर्. प्याकर्स—रहमतुल्ला रहमखान पठाण प्लाट नं. 116 सी ए 117</p> <p>19) राहुल प्याकर्स—रेहतुल्ला आर्. पठाण प्लाट नं. 118 डी ए ई</p>
								<p>20) चवाण रामब्रिज एस्.—प्लाट नं. 67 बी</p> <p>21) राहुल प्याकर्स—रेहतुल्ला पठाण प्लाट नं. 70 बी</p> <p>22) श्रीनिधी इंडस्ट्रीस्—रामनाथ नारायण बही</p> <p>23) गिडनवर निर्मला गुरुपुत्र</p>
				ग्रामथाना	निजी	शुष्क	2900	ग्रामथाना
						योग	90075	

[फा. सं. भाराराप्रा/एलए/आरओ-बीएनजी/कर्नाटक/धारवाड़]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2013

S.O. 24(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1223(E) dated 28th May 2012, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 4 on the stretch of land from Km. 433.000 to 515.000 (Dharwad - Belgaum Section) in the District of Dharwad and Belgaum in the State of Karnataka;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Deccan Herald" English Daily and in "Samyukta Karnataka" Kannada Daily both dated the 21.06.2012, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.433.000 to Km.515.000 (Dharwad - Belgaum Section) of the National Highway No.4 in the state of Karnataka

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Square metres)	Name of person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.Dharwad	1.Dharwad	1) Kumbapur	91	Private	Dry	2600	Agriculture University Dharwad
				92	Private	Dry	1200	Agriculture University Dharwad
				93/4	Private	Dry	300	Agriculture University Dharwad
				94/2	Private	Dry	350	Agriculture University Dharwad
				94/1	Private	Dry	300	Agriculture University Dharwad
				97/2	Private	Dry	1200	Agriculture University Dharwad
				97/1	Private	Dry	800	1) Agriculture University Dharwad 2) Narendra Kandeshwar S/o Basavantappa
			2) Mummigatti	10	Private	Dry	24	1) Kumar Desai Shivanand S/o Appasaheb
				9	Private	Dry	120	1) Patadayyanavar Shivaputrayya S/o Basayya 2) Patadayyanavar Guruputayya S/o Basayya 3) Patadayyanavar Shivanandya S/o Basayya
				5	Private	Dry	270	1) Kyattappanavar Basappa S/o Bhimappa 2) Kyattappanavar Manjunath S/o Bhimappa 3) Kyattappanavar Shokappa S/o Bhimappa 4) Kyattappanavar Channappa S/o Bhimappa 5) Kyattappanavar Gouravva W/o Yallappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6) Kyattappanavar Chandrappa S/o Yallappa 7) Kyattappanavar Devappa S/o Kallappa 8) Kyattappanavar Arjun S/o kallappa 9) Kyattappanavar Parishappa S/o Kallappa 10) Public Drinking Water Pond.
				2	Private	Dry	200	1) Asundi Fakirappa S/o Yallappa 2) Gunavante Deepak S/o Gajanan 3) Asundi Dharanendra S/o Jinnappa 4) Danappanavar virappa S/o Channabasappa
				Gramthana	Private	Dry	385	Gramthana
				Gramthana	Private	Dry	360	Gramthana
				181	Private	Dry	660	1) Kusappanavar Mahadevi W/o Mahadevappa 2) Kusappanavar Channabasappa S/o Mahadevappa 3) Kusappanavar Nilappa Urf Anil S/o Mahadevappa 4) Kolavekar Uday S/o Tukaram
								5) Shaha Radhika S/o Vijayakumar 6) Shaha Manasi S/o Kiranchandra 7) PWD 8) The President of India-National
				180P	Private	Dry	360	1) Manu Ganapati Shanbhag 2) Nagappa Panduranga Pai
				179P	Private	Dry	560	Rashtrothan Parishad Kempegouda Nagar Bangalore

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				176P	Private	Dry	120	1) Kadli Urf Sulla Ningappa S/o Kallappa 2) Kadli Urf Sulla Basappa S/o Ningappa 3) Kadli Urf Sulla Kallappa S/o Irappa 4) Desai Sanjay S/o Abasaheb 5) Desai Varun S/o Abasaheb
				171	Private	Dry	5667	1) Desai Chandrashekar S/o Gangappa 2) Desai Ishwar S/o Gangappa 3) Karnataka Industrial Area Bangalore
				156	Govt	Dry	240	Government
				157	Private	Dry	240	1) Marittammanavar Pundalikappa S/o Malappa 2) Marittammanavar Satyappa S/o Malappa 3) Marittammanavar Mallappa S/o Malappa
				161	Private	Dry	720	1) Krishnappanavar Basappa S/o Govindappa 2) Krishnappanavar Laxman S/o Govindappa
				161/1	Private	Dry	890	1) Pooja Janak S/o Fakirappa Chavan Dattak Shivaji Pawar 2) Desai Varunakumar Abasaheb
			3)Guledakoppa	10P	Private	Dry	45	Navalur Manjunath S/o Gangappa
				8	Private	Dry	210	1) Jadav Rukammavva W/o Hanamantappa 2) Jadav Fakirappa S/o Hanamantappa 3) Jadav Ishwar S/o Hanamantappa 4) Jadav Irappa S/o Hanamantappa 5) Jadav Siddavva S/o Hanamantappa 6) Uddhoji Basavva W/o Irappa 7) Jadav Yallappa S/o Kerappa
				3	Govt	Wet	560	Pond

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4	Private	Wet	300	Mane Gadeppa S/o Santappa
				5	Private	Dry	600	1) Mane Urf Navane Krishanappa S/o Subbappa 2) Mane Urf Navane Ramachandra S/o Rajappa 3) Mane Urf Navane Hanumantappa S/o Rajappa 4) Mane Urf Navane Sankappa S/o Rajappa 5) Mane Urf Navane Pundalikappa S/o Rajappa 6) Mane Urf Navane Vishnu S/o Rajappa
				179	Private	Dry	390	Patil Yallanagouda S/o Devappa
2	2.Belgaum	1.Bailhongal	1)Dombarkoppa	84	Private	Dry	120	Ingle Sanjiv S/o Mohandas
				85	Private	Wet	390	1) Changoli Shivanand Shivaputrappa 2) Changoli Shashidhar Shivaputrappa 3) Changoli Srikanth Shivaputrappa 4) Changoli Sadanand S/o Shivaputrappa
				88	Private	Dry	240	1) Meersab S/o Jainulla Hajaratbhai 2) Nissarahammed S/o Jainulla Hajaratbhai
				91	Private	Dry	510	1) Vittal S/o Hanamantappa Bhandari 2) Gudagi Madivalappa Gangappa 3) Gudagi Basavaraj Gangappa
				83	Private	Dry	45	1) Kotakar Laxman Tippanna 2) Kotakar Tippanna Fakirappa 3) Kotakar Hanamanth S/o Fakirappa 4) Kotakar Gangappa Ramappa 5) Kotakar Balavva W/o Bhimappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6) Kolakar Basappa Bhimappa 7) Kolakar Dayanand Bhimappa 8) Kolakar Parvthavva W/o Sannapakirappa 9) Kolakar Gangappa Ramappa 10) Kolakar Balavva Bhimappa
				86	Private	Wet	390	1) Madigar Yamanappa M/o Malavva 2) Huler Kareppa Ningappa 3) Government 4) Huler Somalingappa Ningappa 5) Huler Yamanurappa Ningappa 6) Huler Fakirappa M/o Havalavva 7) Huler Basavaraj M/o Havalavva 8) Huler Shankreppa M/o Narayan Havalavva 9) Huler Narayan M/o Havalavva
				87	Private	Dry	720	1) Shri. Narayan S/o Krishnaji Bhaskari 2) Bhalavadi Abdullah Goumohiddin
			2) Ambadagatti	73	Private	Dry	1900	Dastikoppa Basavantappa Ganeshdappa
			3) Kadrolli	85/7	Private	Dry	100	1) Shri. Gangappa S/o Bhalappa Kurabar 2) Shri. Babu S/o Bhalappa Kurabar
			4) Dastikoppa	22	Private	Dry	105	H. L. Swami M/S Pvt. Limited Bangalore
		2. Belgaum	1) Tarihal	280	Private	Dry	105	Attar Bhyar Mohammed Sub
				281	Private	Dry	125	Attar Bhyar Mohammed Sub

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2) Kamkaratii	14	Private	Dry	1600	1) Kamannavar Nagappa Chudappa 2) Kamannavar Rama Chudappa 3) Kamannavar Bhakanna ponappa 4) Kamannavar Gouravva Maruti 5) Kamannavar Narayan Ponappa 6) Kamannavar Parushuram Ponappa 7) Kamannavar Fakira Ponappa 8) Kamannavar Manohar Hunappa
				15	Private	Dry	200	1) Lakamannavar Mallappa Channappa 2) Lakamannavar Appayya Channappa 3) Lakamannavar Mohan Arjun
			3) Halaga	252	Private	Dry	30	1) Gayaran 2) Karnataka Government 3) Gouri Laxman Mashanu 4) Gouri Hanumanthache Shiddappa Gundu 5) Gouri Monappa Revani 6) Gorpade @Gouri Hanumanthache Baburao 7) Gorpade @ Gouri Hanumanthache Ashok Mallappa 8) Gorpade @ Gouri Hanumanthache Maruti Mallappa 9) Gorpade @ Gouri Hanumanthache Arjun Mallappa 10) Gorpade Raju Devappa 11) Gouri Hanumanthache Bhairu Nagappa 12) Gouri Hanumanthache Bharna Nagappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				251	Private	Dry	250	1) Shindhe Fakira Annappa 2) Shindhe Shankar Annappa
				255	Private	Dry	60	1) Shindhe Appayya Annappa 2) Shindhe Dharmanth Bhairu 3) Bilagoji Rama Bhima 4) Bilagoji shivaji Bhima 6) Shindhe Bhimarao Bhairu 7) Shindhe Rajendra Maruthi 8) Shindhe Gajanan Maruthi 9) Bilagoji Maruti Bhima
				256	Private	Dry	90	1) Bilagoji Shankar S/o Gangaram 2) Bilagoji Fakira Sadhu 3) Bilagoji Laxman Sadhu 4) Bilagoji Monappa Sadhu 5) Bilagoji Mahadhev Sadhu 6) Bilagoji Gangubai Balappa 7) Bilagoji Yallappa Maruti 8) Bilagoji Ramesh Maruti 9) Bilagoji Laxman Maruti 10) Bilaguche Piraji Monappa 11) Nahind Maheboob Bhasha Pathan
				257	Private	Dry	220	1) Kamati Babu Bhairu 2) Kamati Balu laxman 3) Kamati Bhairu Laxman 4) Kamati Piraji Fakira 5) Kamati Babu Devappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6) Kamati Gundu Devappa 7) Kamati Krishna Devappa 8) Kamati Arjun Fakira 9) Kamati Yallappa Fakira 10) Kamati Parashuram Sahadev
				258/2	Private	Dry	180	1) Pathan Niyaz SattarKhan 2) SattarKhan Pathan Niyaz
				258/1	Private	Dry	250	1) Pathan Mohammed Rasul 2) Pathan Najir Rasul 3) Pathan Maktum Rasul 4) Pathan Basir ModhinKhan 5) Pathan Munna ModhinKhan 6) Pathan Mustapa ModhinKhan
				259	Private	Dry	75	Bilagoji shankar S/o Gangaram
				260/5	Private	Dry	75	1) Jadhav Arjun Fakira 2) Jadhav Jinabhai W/o Maruti 3) Jadhav Vittal Fakira 4) Jadhav Gangubai C/o Fakira 5) Jadhav Yallappa Vasant 6) Jadhav Piraji Nagendra 7) Jadhav Kishanakumar Nagendra
				260/4	Private	Dry	180	1) Shamaji Krishna shettu 2) Shamaji Yallappa Mashanu
				260/3	Private	Dry	10	Desai Abhaya Chintamani

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				241	Private	Dry	60	1) Pai Manur Venkatesh 2) Hegade Sadanand Vigneshwar 3) Kudachi Basavant Kallappa 4) Kudachi Hanamant Kallappa 5) PWD Belgaum
				240	Private	Dry	280	Bellad & Company Pvt.Ltd
				261/3	Private	Dry	45	1) Chikaparappa Bhabubeli Tavanappa 2) Chikaparappa Chandrakant Tavanappa 3) Chikaparappa Nagakumar Dharmant 4) Chikaparappa Ashok Dharmant 5) Chikaparappa Jinesdatta Dharmant 6) Bharatesh Education Trust BGM
				261/2	Private	Dry	90	1) Hanamanthache Yallappa Yallappa 2) Kundlikar Appayya Yallappa 3) Ginnal Fakira Baskhaji 4) Kalinga Parasaram Dattobha 5) Chougale Fakira Bhachappa 6) Hanumanthache Ramachandra Bhairu 7) Khamannache Fakira Bharama 8) Hanumanthache Nagesha Ningappa
				261/1	Private	Dry	315	1) Doddaparappa Surandre Kallappa 2) Doddaparappa Babubeli Gundu 3) Doddaparappa Kallappa Gundu
				160	Private	Dry	50	1) Kangalagouda Babu Mallappa 2) Kangalagouda Appanna Tavannappa 3) Kangalagouda Appanna @ Appayya Tavanappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4) Basurathekar Jayant Raghunath 5) Vasoji Fakira Ningappa 6) Kangalagouda Gopal Devappa
								7) Kangalagouda Mahaveer Manik 8) Kangalagouda Shanta Babu 9) Kangalagouda Anand Babu
								10) Kangalagouda Abhinandan Babu 11) Kangalagouda Devappa Babu 12) Kangalagouda Shankuntala Jinappa 13) Kangalagouda Parish Jinappa
				261/1	Private	Dry	220	1) Doddaparappa Surendra Kallappa 2) Doddaparappa Bahubali Gundu 3) Doddaparappa Kallappa Gundu
				262	Private	Dry	645	1) Gayaran 2) Karnataka Government 3) Bharatiya Rural Development Foundation- Hosur
				265	Private	Dry	270	1) Saibannavar Tavanappa Devendrappa 2) Saibannavar Neminat Arjun 3) Saibannavar Dharanendra Arjun 4) Saibannavar Surendra Arjun 5) Saibannavar Sumitra W/o Arjun 6) Saibannavar Hirachand Appasheb 7) Saibannavar Mahaveer Appasaheb 8) Saibannavar Shobha Manmath 9) Saibannavar Vrushab Manmath

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				266	Private	Dry	45	1) Bilagoji Laxman Bhairav 2) Bilagoji Yallappa Yallappa 3) Bilagoji Piraji Bhairva 4) Bilagoji Mallappa Bhairav 5) Bilagoji Basavanth Laxman 6) Bilagoji Basappa Nagappa 7) Pathan Isuf Muktum 8) Muraganni Omanna Irappa 9) Santhaji Khemanna Mallappa
				2	Private	Dry	205	Shrimanth Patil Kallappa Bharmanna
				109	Private	Dry	180	1) Mudigouda Yashavanth Khuber 2) Mudigouda Balappa Khuber 3) Mudigouda Devendra Khuber 4) Desai Annasaheb Appayya 5) Desai Hirachand Appayya 6) Saibannavvar Appanna Tavannappa 7) Saibannavvar Bharna Tavanappa 8) Desai Rajendra Annappa 9) Desai Ashok Annappa 10) Desai Vijay Annappa
				102	Private	Dry	132	1) Khanaji Chandrakant Fakira 2) Khanaji Laxmibai W/o Fakira
				83	Private	Dry	850	1) Samaji Kiran Maruti 2) Samaji Yallappa Monappa 3) Samaji Narayan Laxman 4) Samaji Bhalasaheb Maruti

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5) Samaji Milindh Maruti 6) Samaji Shakuntala Maruti 7) Samaji Suresh Bhimrao 8) Samaji Malu Vijay 9) Samaji Rani Vijay
				81	Private	Dry	15	1) Samaji Yallappa Mallapa 2) Samaji Maryani Gangaram 3) Samaji Shivaji Gangaram 4) Samaji Mahadev Gangaram 5) Samaji Devappa Shattu 6) Samaji Laxman Shankar 7) Samaji Sanjay Shankar 8) Samaji Jinnappa Shattu 9) Samaji Krishna Shattu 10) Samaji Kallappa Gangaram
				82	Private	Dry	15	1) Kulkarni Shankar Ganesh
				101/2	Private	Dry	302	1) Payak Anant Dharmappa 2) Payak Balappa Kallappa 3) Payak Ashok Kallappa 4) Payak Bharth Kallappa 5) Dammanagi Arjun Jinnappa 6) Payak Bahubhali Appanna 7) Gumagi Channappa Yallappa
				49	Private	Dry	65	1) Bandhakka Devendrappa Tavanappa 2) Bandhakka Keshappa Tavanappa 3) Dinde Sanjay Arjun 4) Patil Vidyasagar Bhimappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				50	Private	Dry	235	1) Desai Bhabu Gundappa 2) Desai Jinnappa Gundappa 3) Desai Sumitra W/o Gundappa 4) Lengade Nirmalkumar Tavanappa 5) Inchal Harshavardhan Anilkumar
				59	Private	Dry	15	1) Munnolli Satavva W/o Bhimappa 2) Munnolli Jinnappa Bajappa 3) Tigadi Santavva W/o Arjun 4) Khanoshi Lalita W/o Mahendra 5) Desai Vimal W/o Sanjiv
				60	Private	Dry	455	1) Jamanani Hirachadh Kikaram 2) Jamanani Bhagavanadas Kikaram 3) Jamanani Gopal Kikaram 4) Jamanani Uttama Kikaram 5) Jamanani Shrichandh Kikaram 6) Kamannache Nagendra Laxman 7) Kamannache Anant Laxman 8) Kamannache Gopichand Laxman 9) Kamannache Gyneshwar Gundu 10) Kamannache Namadev Gundu 11) Kamannache Tukaram Gundu 12) Kamannache Suresh Gundu 13) Desai Aruna W/o Shashikumar 14) Desai Priti Adrushappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				60	Private	Dry	761	1) Jamanani Hirachadh Kikaram 2) Jamanani Bhagavanadas Kikaram 3) Jamanani Gopal Kikaram 4) Jamanani Uttama Kikaram 5) Jamanani Shrichandh Kikaram 6) Kamannache Nagendra Laxman 7) Kamannache Anant Laxman 8) Kamannache Gopichand Laxman 9) Kamannache Gnyneshwar Gundu 10) Kamannache Namadev Gundu 11) Kamannache Tukaram Gundu 12) Kamannache Suresh Gundu 13) Desai Aruna W/o Shashikumar 14) Desai Priti Adrushappa
				61/1	Private	Dry	300	1) Mudigouda Yashavant Khuber 2) Mudigouda Balappa Khuber 3) Mudigouda Devendra Khuber
			4) Belgaum	609	Private	Dry	1197	1) Muchnaddi Shailaja Mahadev 2) Muchnaddi Mahadev Bharmaji
				611	Private	Dry	420	1) Shahapurkar Laxman Satappa 2) Shahapurkar Dasharath Satappa 3) Shahapurkar Sadashiv Satappa 4) Shahapurkar Bhairu Satappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5) Shahapurkar Kallappa Krishna 6) Shahapurkar Shrimanth Krishna 7) Shahapurkar Mahesh Krishna 8) Shahapurkar Jyotibha Ningappa 9) Shahapurkar Parashuram Ningappa
				485/1	Private	Dry	40	1) Sankal Purushottam Narayana 2) Sankal Jadavaji Narayana 3) Pokar Manilal Vishram 3) Pokar Shankarlal Vishram 5) Patel @Lambani KakkuBhai Somaji 6) Patel @Lambani Dinish Somaji 7) Patel @Lambani Narayana Somaji 8) Patel @Lambani Dharmshi Somaji 9) Patel @Lambani Praveen Somaji
				483/4	Private	Dry	190	1) Chougale Rama Mego 2) Perumal Pramela Rajingoudar 3) Chougale Laxman Mego 4) Jadhav Milind Jayavant 5) Chougale Krishna Mego
				483/5	Private	Dry	85	Malika Lumanna Somanna
				481/3	Private	Dry	120	PWD
				480	Private	Dry	330	1) Chougala Shrimandar Bhupal 2) Chenamkar Imamhusen Mohammed Sab 3) Pathan NazirAhamdh Davudasab 4) Kittur ShakilAhamad Ibrahim Sab

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5) Kadam Gopal Bhimarao 6) Irachi Dhattu Narayan 8) Patil Kudhaji Tukaram 9) Patil Yashodhabhai Khudhaji 10) Kadam Ashok Gopalrao
				451	Private	Dry	190	1) Shri Naganur Shri Shivabasav Swamiji Education Trust
				499/1	Private	Dry	240	1) Sheregar Ambha Ramanna 2) More Shankar Fakira 3) More Krishna Fakira 4) Patel NarendraKumar Premaji 5) Patel Chandulal Premaji
				485/2	Private	Dry	350	1) Ferdinand Lawrence Pinto 2) Dhongadi Dayanand Dattatraya 3) Dhongadi Jayant Dattatraya 4) Dhongadi Mahendra Dattatraya 5) Dhongadi Raghunath Dattatraya
				483/4	Private	Dry	200	1) Chougale Rama Mego 2) Perumal Pramela Rajingoudar 3) Chougale Laxman Mego 4) Jadhav Milind Jayavant 5) Chougale Krishna Mego
				481/2	Private	Dry	320	PWD
				819	Private	Dry	40	1) Datar Palabhai Maddurao 2) Anagol Shashish Parishappa
				821	Private	Dry	700	1) Kotageri Talap

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				822	Private	Dry	150	1) Ramagonda Rajendra Payappa 2) Ramagonda Ravindra Payappa 3) Ramagonda Ratan Payappa 4) Ramagonda Rakesh Payappa 5) Ramagonda Sulochana Payappa 6) Belgaum PWD Executive Engineer
				843	Private	Dry	25	Vandakar Nalini Suresh
				1024/A	Private	Dry	15	1) Rajaput Dharmasing Bhimasing 2) Rajaput Ramasing Bhimasing 3) Rajaput Chabbusing Bhimasing 4) Rajaput BasavanthSing Bhimasing
				1019/2B	Govt	Dry	360	PWD Belgaum
				1019/2A	Govt	Dry	300	PWD Belgaum
				1019/1	Private	Dry	480	1) Naidu Subbhayya Rangaswami 2) Naidu Kumaraswami Rangaswami 3) Naidu Vijay Rangaswami 4) Naidu Laxmi W/o Rangaswami Urf Rangayya 5) Chendak Vikram Rajendra 6) Chendak Sarala Rajendra 7) Chendak Jayashri Jaiprakash 8) Gilada Nirmala Vasudev 9) Secretary Planing Authority Belgaum
				1316/2	Private	Dry	171	1) Belgaum Municipality 2) Kadolkar Balakrishna Dattatraya 3) Patil Ravindra Shankargouda Plot 214 4) Heda Ganasham L Plot No.219

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5) Gadag Nagappa Gadigeppa 6) Duragannavar Indrabai Devendra Plot No.210 7) Bogar Chandrappa Kuberappa Plot No. 206
				1315/3	Govt	Dry	1050	1) Belgaum Municipality
				1315/2	Govt	Dry	660	1) Belgaum Municipality
				1317/1	Private	Dry	720	1) Belgaum Municipality 2) Patil K. I 3) Banagavi Balappa Ningappa
			5) Kangrali B.K	38/20	Private	Dry	20	Mugulikar Gangabhai Yallappa
				38/9	Private	Dry	385	Shri. Shivaji S/o Gundu Halgekar
				38/8	Private	Dry	150	Shri. Mommad Shafi S/o Hajarat Saheb Peerijade
				38/7	Private	Dry	200	1) Neganihal Bhimappa Virupaxi Plot No.3 2) Sankannavar Basavanne Shankareppa PlotNo.3 3) Rasal Vijayakumar Pandurang Plot No.4 4) Koneri Urf chavan Ningappa Yallappa 5) Alathagi Jyoti Ashok Plot No 5
				38/6	Private	Dry	240	1) Doshi Ramanlal Tarachand 2) Doshi Suresh Tarachandh 3) Doshi Dilip Tarachand 4) Doshi Kirthkumar Tarachand
				38/5	Private	Dry	240	1)Shri Narayan S/o Kallappa Patil 2) Shri Maru S/o Kallappa Patil
			6) Yamanapur	115	Private	Dry	5520	K.I.A.D.B Board Bangalore
				116/3	Private	Dry	350	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				114/1	Private	Dry	4960	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				114/1	Private	Dry	145	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				110/3	Private	Dry	525	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				110/1	Private	Dry	400	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				116/2	Private	Dry	425	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				117A	Private	Dry	525	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				110/1	Private	Dry	195	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				109/1	Private	Dry	20	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				105	Private	Dry	125	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				16/65	Private	Dry	640	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				16/59	Private	Dry	225	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				16/58	Private	Dry	90	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				16/55	Private	Dry	100	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				16/54	Private	Dry	110	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				16/53	Private	Dry	75	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				16/52	Private	Dry	20	Indian Alluminium Company Ltd Belgaum
				14/2	Private	Dry	80	1) Patil Mallavva Bhavuk Urf Bhavakanna 2) Kanabarakar Chanda Prakash 3) Khocheri Babi Gajanan 4) Pawar Nita Laxman
				14/3	Private	Dry	25	Patil Kedar Omana
				14/4	Private	Dry	30	Patil Rama Sidrayi
				14/5	Private	Dry	60	1) Patil Piraji Siddappa 2) Patil Kedar Siddappa 3) Patil Gavadu Siddappa 4) Patil Bavurao Siddappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5) Patil Parashuram Siddappa 6) Patil Bhujang Irappa 7) Patil Dasharath Sidrayi 8) Patil Kiran Shidrayi
				14/6	Private	Dry	40	Patil Dhakalu Ningappa
				14/7	Private	Dry	10	1) Patil Maruti Govind 2) Patil Ningappa Govind 3) Patil Andhugouda Govind 4) Patil Laxman
				14/1	Private	Dry	75	Patil Piraji Nago
				13	Private	Dry	300	1) Patil Bavakanna Dunddappa 2) Patil Balu Dunddappa 3) Patil Mahadev Bhairu 4) Patil Balaram Bhairu 5) Patil Shymaram Bhairu
				10	Private	Dry	360	1) Dhondaji Pawar Devappa Sidrayi 2) Dhondaji Pawar Rudrappa Punnappa 3) Dhondaji Pawar Ramachandra Punnappa
				9	Private	Dry	475	1) Konevadi Piraji Sidrayi
			7) Kakati	208	Private	Dry	416	1) Nagavadekar Raju Sidram 2) Nagavadekar Laxman Sidram 3) Narvekar Piraji Chalu 4) Purohith Chegasing Ravatasing 5) Konevadi Bharna Yallappa 6) Konevadi Bhairu Yallappa 7) Konevadi Maruthi Yallappa 8) Konevadi Basavanta Yallappa 9) Konevadi Chudappa Yallappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10) Konevadi Devappa Yallappa 11) Huradi Balu Gangaram 12) Bandurge Somanath Laxman 13) Varape Malleshi Dattu
				207	Private	Dry	1350	1) Oil J, Oil 292-13/7/50 2) Toral Talava
				207	Private	Dry	1000	1) Oil J, Oil 292-13/7/50 2) Toral Talava
				213/2	Private	Dry	2465	1) Renuka Sugars - Tarfe - Nandhan 2) Vital Rao Yalagi
				213/1	Private	Dry	1200	Bavadekar Praveen Sharad
				212/5	Private	Dry	1250	1) Barade Vikas Dattatraya
				212/1B	Private	Dry	15	1) Barade Vikas Dattatraya 2) Bharath Petroleum Corporation Company
				214/7	Private	Dry	250	1) Dhanagar Urf Kurubhara Bhimappa Ramappa 2) Dhanagar Urf Kurubhara Maruthi Ramappa
				215	Private	Dry	210	1) Sheikh Mommed Isak Abdul Ajij 2) Sheikh Mommed Shapi Abdul Ajij 3) Sheikh Mommed Nisar Abdul Ajij 4) Sheikh Paimida Mommed Rafik 5) Sheikh Samina Mommed Rafik 6) Sheikh Asif Mommed Rafik 7) Sheikh Minaj Mommed Rafik
				216/16	Private	Dry	175	1) Danagar Laxmibai Channappa 2) Danagar Fakira Channappa 3) Danagar Siddappa Channappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4) Danagar Kallappa Channappa 5) Danagar Vital Channappa 6) Danagar Maruti Channappa
				217/7	Private	Dry	140	1) Huddar Bharna Mashnu 2) Huddar Omana Mashnu 3) Huddar Ganapati Mashnu
				217/5	Private	Dry	240	Koneri Kobhanna Kalu
				219	Private	Dry	125	Manjarekar Nayana Subhod
				219	Private	Dry	650	Manjarekar Nayana Subhod
				232/4	Private	Dry	605	Kakti Urf Rangayi Shankar Siddappa
				145/5	Private	Dry	120	Kulkarni Ramakrishna Urf Prathap Shesho
				145/4	Private	Dry	75	Kulkarni Ramakrishna Urf Pratap
				78/1	Private	Dry	90	1) Shedekar Narayan Hanumanth 2) Chougale Maruti Ramachandra 3) Misala Balasaheb Hanumanthrao 4) Patil Prakash Narayan 5) Patil Ramachandra Tukaram 6) Kadolakar Tukaram Krishna
				79	Private	Dry	415	1) Mulla Mohamad AbdulKarim
				80	Private	Dry	255	1) Halagekar Mahesh Ramarao 2) Kocheri Sidarayi S/o Gundu 3) Kocheri Bhimaray S/o Gundu 4) Kocheri Kedar S/o Gundu 5) Managutakar Manuk Ningappa 6) Kocheri Gundu Siddappa 7) Kocheri Kallappa Kiranna 8) Kocheri Ganapathi S/o Bharama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								9) Kocheri Bhavakanna S/o Bharama 10) Kocheri Babu S/o Bharama 11) Kocheri Manohar S/o Bharama
								12) Kocheri Bharama Ganesh 13) Kocheri Kallappa Kirana 14) Kocheri Umesh Jyotibha 15) Kocheri Kiran Rajesh Jyotiba 16) Kocheri mahesh Jyotibha
								17) Kocheri Shrimathi Vasundhara Jyotiba 18) President of India Authority 19) Gavi Masanna Mayanna
								20) Gavi Gundu Mayanna 21) Agh Abdulkhadar Ibrahim 22) Ghomanna Mallappa Venkatesh 23) Sambrekar Vivek Shankar
				70	Private	Dry	105	1) Patil Shankar Nagappa 2) Khutre Laxman Nagappa 3) Khole Baburao Basavant 4) Khole Narayana Basavant
				83/23	Private	Dry	420	1) Gavi Mashnu Mayanna 2) Gavi Gundu Mayanna 3) Khangralkar Sidraya Siddappa
				83/1	Private	Dry	560	Halannavar Mallappa Birappa
				82	Private	Dry	405	1) Shri Ganapati 2) Bhavakanna 3) Babu 4) Manohar S/o Bharama Kocheri

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83/15	Private	Dry	5	1) Khocheri Laxman Sidda 2) Khocheri Kedar Sidda
				83/11	Private	Dry	155	Khocheri Ramakka sidrayi
				83/6	Private	Dry	360	1) Gavi Mashnu Mayanna 2) Gavi Gundu Mayanna
				83/10	Private	Dry	5	1) Khocheri Babu Parushuram
				83/9	Private	Dry	135	1) Khocheri Kallappa Kirayanna 2) Khocheri Ananda Kirayanna
				83/7	Private	Dry	105	Khocheri Bharna Ganesh
				83/5	Private	Dry	130	Khocheri Babu Parushuram
				83/4	Private	Dry	50	1) Khocheri Sidarayi Gundu 2) Khocheri Kallappa Gundu 3) Khocheri Bhimaray Gundu 4) Khocheri Kedar Gundu
				83/3	Private	Dry	225	1) Khocheri Anand Kedar 2) Khocheri Pundalik Kedar
				83/2/1	Private	Dry	1900	1) Khocheri Ananda Kedar 2) Khocheri Pundalik Kedar 3) Gavi Mashanu Mayanna 4) Khocheri Jyothi Yallappa 5) Khocheri Parasu Jyothi 6) Khocheri Kallappa Giryanna 7) Gavi Mashanu Mayanna 8) Khocheri Bharna Ganesh 9) Khocheri Gundu Siddappa 10) Jyotiba Mashanu Gavi
				83/1	Private	Dry	925	Halannavar Mallappa Birappa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				83/24	Private	Dry	135	1) kocheri Anand Kedar 2) kocheri Pundalik Kedar 3) Jyotiba Mashanu Gavi
				80	Private	Dry	660	1) Halagekar Mahesh Ramarao 2) Kocheri Shiddarayi S/o Gundu 3) Kocheri Bhimaray S/o Gundu 4) Kocheri Kedhar S/o Gundu 5) Managutakar Manuk Ningappa 6) Kocheri Gundu Siddappa 7) Kocheri Kanappa Kiranna 8) Kocheri Ganapathi S/o Bharama 9) Kocheri Bhavakanna S/o Bharama 10) Kocheri Babu S/o Bharama 11) Kocheri Manohar S/o Bharama 12) Kocheri Bharama Ganesh 13) Kocheri Kallappa Kirana 14) Kocheri Umesh Jyotiba 15) Kocheri Kiran Rajesh Jyotiba 16) Kocheri mahesh Jyotiba 17) Kocheri Shrimati Vasundhara Jyotiba 18) President of India Authority 19) Gavi Masanna Mayanna 20) Gavi Gundu Mayanna 21) Agh Abdulkhadar Ibrahim 22) Ghomanna Mallappa Venkatesh 23) Sambrekar Vivek Shankar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				81	Private	Wet	625	1) Desai Sadanand Shankar 2) Desai Sarojini Sadanand 3) Desai Rajendra Sadanand 4) Desai Sunil Sadananda 5) Desai Dipak Sadanand 6) Desai Avinash Jayant 7) Desai Lilavati Jayant 8) Markande Sugar
				85	Private	Dry	480	1) Chougale Siddaraya Laxman 2) Markande Sugar Mills 3) Mayannache Basavant Shankar 4) Khocheri Rajesh Jyotiba 5) Khocheri Umesh Jyotiba 6) Khocheri Mahesh Jyotiba 7) Khocheri Vasundhara Jyotiba 8) Karegar Raju Mahadev 9) Halannavar Mallappa Bhimappa 10) Shekhargol Nirvani Siddappa 11) Patil Balagouda Irappa
			8) Honaga	532	Private	Dry	5123	Patil Viswapal Rudragouda
				536	Private	Dry	320	1) Land Developing Mandali Belgaum 2) Dadason's Rubber Rollar Pvt.Ltd 3) Suprabha Enterprises 4) Virabhadra Life Industry 5) Gidannavar Guruputra Siddappa
				534/3	Private	Dry	115	Patil Prakash Dattu
				534/2	Private	Dry	20	Patil Anand Rajaram

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				534/1	Private	Dry	60	1) Patil Subharao Bhairu 2) Patil Fakirabhai Omina
				541	Private	Dry	490	1) Anandache Khachu Channappa 2) Anandache Balappa Rama 3) Anandache Mahadev Rama 4) Anandache Vishnu Kallappa
				Gramthana	Private	Dry	300	Gramthana
				Gramthana	Private	Dry	537	Gramthana
				536	Private	Dry	3095	1) K.I.A.D.B Board Belgaum 2) DadaSon's Ruber Rollar Pvt.Ltd 3) Niranjana Durgaprasad Plot 115-A 4) Suprabhat Enterprises 5) Virabhadreshwar Lime Industry- Mantesh B Shivapujimath Plot No 107 6) Jyoti Motor Body Builder Properties- Punnappa V Kadokar Plot No.81/A 7) Catson Polymers Partners Santanu Kavatekar Plot No-43 8) Shivshakti Kanafaksanary Works- M G Hegade 9) Deepshri Plastic Industry- Nirmala H Patil Plot No. 57/A 10) Parvathi Industries- P R Patel 11) The Quality Cement Production- Mamula M Mujavar Plot No- 11/A 12) Laxmi Industries 13) Ganesh Industries- Viresh M Avate Plot No. 56B

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								14) Inchal Shivanand Prabhakar Plot No.38 15) S.S. Production- Sunitha S Kulkarni Plot No. 100T 16) H G Pharmacy Alam Tarfe- Killedar Nasarin Dadapir Plot No. 62/A 17) Phama Industries- S.A.L.Roch
								18) R.R Packers- Rahamatulla- Rahamakhn Patan-Plot No. 116 C & 117 19) Rahul Packers- Rehatulla R Pathan- Plot No. 118 D& E
								20) Chavan Ramabridge S- Plot No 67B 21) Rahul Packers- Rehatulla Pathan- Plot No. 70/B 22) Shrinidhi Industries- Ramanath Narayan Baddi 23) Gidanavar Nirmala Guruputra
				Gramthana	Private	Dry	2900	Gramthana
						Total	90075	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/Dharwad]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.